



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 694 राँची, शुक्रवार,

16 अगस्त, 2019 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

संकल्प

6 मार्च, 2019

विषय:- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के दिनांक-01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारकों को वित्त विभागीय संकल्प सं०-858 दिनांक-27.03.15 के आलोक में पेंशन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

संख्या-05/बी०ए०यू०-41/2013-551-क०,-- झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (तत्कालीन कृषि एवं गन्ना विकास विभाग) के द्वारा विभागीय संकल्प सं०-3769 दिनांक-18.12.2010 के द्वारा अनुशंसित छठे वेतन के आलोक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक वर्ग के लिए एकेडेमिक ग्रेड पे 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 एवं 10,000/- उनके पे बैंड के साथ स्वीकृत है।

2. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची के सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को संशोधित पेंशन (शिक्षकों/वैज्ञानिकों एवं अन्य तत्संबंधी समकक्ष पदाधिकारियों को UGC/ICAR अनुसंधित छठे वेतन की स्वीकृति विषयक निर्गत संकल्प ज्ञापांक-3769 दिनांक-18.12.10 के आलोक में एवं

शिक्षकेतर कर्मी/गैर शिक्षक संवर्ग के कर्मियों को उनसे संबंधित छठे वेतन की स्वीकृति विषयक निर्गत संकल्प ज्ञापांक-3031 दिनांक-02.09.11 के आलोक में संशोधित पेंशन) आदि का वास्तविक लाभ दिनांक-01.01.2006 से देने संबंधी आदेश तत्कालीन कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के संकल्प सं०-3280 दिनांक-07.11.12 के द्वारा निर्गत किया गया एवं इसके आलोक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों को दिनांक-01.01.2006 से पेंशन की गणना कर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

3. वित्त विभागीय संकल्प सं०-660 दिनांक-28.02.2009 की कंडिका-17 में यथावर्णित Chapter-V में राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए 01.01.2006 से एवं पूर्व के पेंशन पुनरीक्षण के प्रावधान किए गए हैं।
4. दिनांक-01.01.2006 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प सं०-660 दिनांक-28.02.2009 की कंडिका-17 के Chapter-V के प्रावधानों को संशोधित करने की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा तत्कालीन वित्त विभागीय संकल्प सं०-858 दिनांक-27.03.15 के द्वारा प्रदान की गयी।
5. झारखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक-858 दिनांक-27.03.2015 के माध्यम से दिनांक-01.01.2006 के पूर्व राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प सं०-660/वि० दिनांक-28.02.2009 के कंडिका-17 में यथावर्णित Chapter-V के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
6. भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारियों के पेंशन को पत्रांक-38/37/08 पी०एण्ड०पी०डब्लू०(ए) दिनांक-13.02.2013 एवं उसके साथ संलग्न पत्र संख्या-38/37/08 पी०एण्ड०पी०डब्लू०(ए) दिनांक-28.01.13 की अनुसूची (क्रमांक संख्या-01-36) के द्वारा संशोधन किया गया है।
7. वित्त विभाग के उक्त संकल्प सं०-858 दिनांक-27.03.15 के द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन/वृद्धि के फलस्वरूप अंतर की बकाये राशि का भुगतान 24.09.12 के प्रभाव से किये जाने तथा दिनांक-01.01.06 से 23.09.12 के अवधि का बकाया पेंशन भुगतान पूर्व प्रावधान के अनुरूप किये जाने का निर्णय लिया गया।

वर्तमान संदर्भ में उक्त के आलोक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं गैर-शिक्षक संवर्ग के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों का झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत पत्रांक-858 दिनांक-27.03.2015 एवं इसका स्पष्टीकरण पत्रांक-70 दिनांक- 02.05.2016 के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन किया जाना है।

8. झारखण्ड सरकार के पत्रांक-858/वि० दिनांक-27.03.2015 का स्पष्टीकरण योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड सरकार द्वारा पत्र संख्या-70/वि०पें० दिनांक-02.05.2016 में की गई है, जो निम्न है :-

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग) भारत सरकार के पत्रांक-38/37/08 P&PW(A) दिनांक-01.9.2008 की कंडिका 4.1 के आलोक में निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की गणना तालिका निम्नवत है:-

(Part A) (Ready Reckoner उक्त पत्र के Annexure-I के रूप में संलग्न)

Pension

- (A) Existing basic Pension (Inclusive of Commuted Portion)(Excluding the effect of merger of 50% of dearness relief)
- (B) Dearness Pension
- (c) Dearness Relief upto AICPI(IW)Average Index 536(Base Year 1982=100) i.e. 24% of (A)+ (B) Above
- (D) 40 % of the Basic pension as at (A) above
- (E) Consolidated pension (A+B+C+D)

Family Pension/Enhanced F.P.

- (A) Existing basic Family Pension/Enhanced Family Pension (Exclusive the effect of merger of 50%of dearness relief)
- (B) Dearness Pension
- (c) Dearness Relief upto AICPI(IW)Average Index 536(Base Year 1982=100) i.e. 24% of (A)+ (B) Above
- (D) 40 % of the Basic Family pension as at (A) above
- (E) Consolidated Family pension (A+B+C+D)

- (ii) वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं०-858/वि० दिनांक-27.03.15 के साथ संलग्न केन्द्रीय लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग) भारत सरकार के पत्रांक-38/37/08 P&PW(A) दिनांक-28.01.2013 के आलोक में निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन (वेतनमान आधारित सुसंगत सारणी उक्त पत्र के साथ संलग्न है, वह सारिणी वैसे सरकारी सेवकों को दृष्टिपथ में रखकर तैयार की गयी है, जो अनुमान्य अधिकतम सेवावधि (33 वर्ष) पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हो) के गणना की तालिका निम्नवत है :- (Part B)

Pension

- (A) 50% of the minimum of pay in the pay band + Grade pay Corresponding to the Pre-revised pay Scale.
- (B) Qualifying service (Maximum of 33 years)
- (c)
$$\text{Pension} = \frac{(A) \times (B)}{33}$$

Family Pension

- (A) 30% of the minimum of pay in the pay band + Grade pay Corresponding to the Pre-revised pay Scale.
- (B) Family Pension = (A)

[पूर्व में उपर्युक्त गणना तालिका की कंडिका-A में 50%/30% of the Minimum of payband का प्रावधान था, जिसे संकल्प सं०-858 दिनांक-27.03.2015 द्वारा 50%/30% of the Minimum of pay in the payband का प्रावधान मात्र किया गया है]

- (iii) पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन, वही होगा जो उपरोक्त कंडिका-(i) या कंडिका-(ii) में निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन में अधिकतम होगा।
- (iv) दिनांक-01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का पेंशन, संशोधन पूर्व वेतनमान जिसमें पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था के तदनुरूपी पे बैंड और ग्रेड पे में न्यूनतम वेतन के योग के 50% से कम नहीं होगा, ना कि वेतनमान जिसमें पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था के प्रतिस्थानी वेतनमान में वेतन (Pay in the Payband) और ग्रेड पे के योग के 50%.

9. तदनुसार पूर्व में निर्गत कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के संकल्प सं०-3769 दिनांक-18.12.10 की कंडिका-19 एवं संकल्प सं०-3031 दिनांक-02.09.2011 की कंडिका-3 (XIII) एवं संकल्प सं०-3280 दिनांक-07.11.12 को उपर्युक्त कंडिका-8 के अनुरूप संशोधित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है।

उपर्युक्त संदर्भित संकल्पों की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

10. नियंत्रक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के पत्रांक-2721 दिनांक-12.10.2017 के द्वारा पेंशन पुनरीक्षण तालिकाओं के साथ-साथ उक्त पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 24.9.2012 से दिनांक-31.3.2017 की अवधि में उनपर अनुमानित अतिरिक्त खर्च 2,84,50,082.00 रु० (दो करोड़ चौरासी लाख पचास हजार बेरासी रूपया) की विवरणी उपलब्ध करायी गयी है, जो अनुलग्नक-I, II एवं III के रूप में संलग्न है।
11. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के दिनांक-01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारकों को वित्त विभागीय संकल्प सं०-858 दिनांक-27.03.15 के आलोक में पेंशन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-14.02.2019 में मद संख्या-01 में सम्मिलित किया गया एवं स्वीकृत किया गया।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव।

अनुलग्नक-I

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की संकल्प सं0-3769 दिनांक-18.12.2010 एवं इसके साथ संलग्न परिशिष्ट-vi के अनुरूप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक संवर्ग के कर्मियों द्वारा वर्तमान वेतनमानों को धारण करने वाले पदों के लिए राज्य सरकार, योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संकल्प ज्ञापांक-858 दिनांक-27.03.2015 एवं पत्रांक-70 दिनांक-02.05.2016 के आलोक में एवं सदृश्य विश्वविद्यालय से वर्ष 2006 के पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन-परिवार पेंशन की तालिका :-

क्र०	दिनांक- 01.01.1986 से वेतनमान	दिनांक- 01.01.1996 से पद/ग्रेड और वेतनमान ग्रेड वेतन	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के पे बैंड / वेतनभोगी के तदनुरूप	तदनुरूप ग्रेड-पे	फिटमेंट सारणी के अनुसार पे बैंड और ग्रेड- पे/ वेतनमान में न्यूनतम वेतन का योग	फिटमेंट सारणी के अनुसार पेंशन पे बैंड और ग्रेड पे में न्यूनतम वेतन / वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 50% का योग	फिटमेंट सारणी के अनुसार परिवार पेंशन-पे बैंड और ग्रेड में न्यूनतम वेतन वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 30% का योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2200-4000	8000-275-13500	15600-39100	6000	21600 (Table-I) of Annex.-vi of Resl. No.-3769 Dt.- 18.12.10 of Agriculture Dept.	10800	6480
2	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200	15600-39100	7000	25600 (Table-2)	12800	7680
3	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300	15600-39100	8000	30320 (Table-3)	15160	9096
4	3700-5700	12000-420-18300	37400-67000	9000	46400 (Table-4)	23200	13920
5	4500-5700 & 4500-7300	16400-450-20900-500- 22400	37400-67000	10000	50890 (Table-5)	25445	15267
6	3700-5700	12000-420-18300	37400-67000	10000	47400 (Table-6)	23700	14220
7	4500-5700	16400-450-20900-500- 22400	37400-67000	10000	50890 (Table-7)	25445	15267

ह०/-

सरकार के सचिव।

अनुलग्नक-II

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की संकल्प सं०-2810 दिनांक-23.09.2004 एवं संकल्प सं०-3031 दिनांक-02.09.2011 के अनुरूप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा वर्तमान वेतनमानों को धारण करने वाले पदों के लिए राज्य सरकार, योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संकल्प ज्ञापांक-858 दिनांक-27.03.2015 एवं पत्रांक-70 दिनांक-02.05.2016 के आलोक में एवं सदृश्य विश्वविद्यालय से वर्ष 2006 के पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन-परिवार पेंशन की तालिका :-

क्र०	दिनांक-01.01.1986 से वेतनमान	दिनांक-01.01.1996 से पद/ग्रेड और वेतनमान ग्रेड वेतन	पे बैंड / वेतनमान का नाम	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के पे बैंड / वेतनभोगी के तदनुरूप	तदनुरूप ग्रेड-पे	फिटमेंट सारणी के अनुसार पे बैंड और ग्रेड पे / वेतनमान में न्यूनतम वेतन का योग	फिटमेंट सारणी के अनुसार पेंशन पे बैंड और ग्रेड पे में न्यूनतम वेतन / वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 50% का योग	फिटमेंट सारणी के अनुसार परिवार पेंशन-पे बैंड और ग्रेड में न्यूनतम वेतन वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 30% का योग
1	2	3		4	5	6	7	8
1	775-1025	2550-55-2660-60-3200	1S	4440-7440	1300 1650 1800 Matric Pass	6050	3500	3500
2	775-1025	2610-60-3150-65-3540	1S	4440-7440	1400 1650 Non-Matric 1800 Metric Pass	6260	3500	3500
3	825-1200	2650-65-3300-70-4000	1S	4440-7440	1650 1800 Matric Pass	6580	3500	3500
4	975-1540	3050-75-3950-80-4590	PB-I	5200-20200	1900	7780	3890	3500
5	975-1540	3200-85-4900	PB-I	5200-20200	2000	8060	4030	3500
6	1200-1800	4000-100-6000	PB-I	5200-20200	2400	9840	4920	3500
7	1400-2600	4500-125-7000	PB-I	5200-20200	2800	11170	5585	3500
8	2200-4000 1400-2600	5000-150-8000	PB-II	9300-34800	4200	13500	6750	4050
9	1500-2750	5500-175-9000	PB-II	9300-34800	4200 or 4600	14430	7215	4329
10	2000-3500 2000-3800 2200-4000 3000-4500	6500-200-10500	PB-II	9300-34800	4200 4800 5400	16290	8145	4887
11	3700-5000	12000-375-16500	PB-III	15600-39100	7600	29920	14960	8976

ह/-

सरकार के सचिव।

अनुलग्नक-III

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर संवर्ग के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारकों के संदर्भ में योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संकल्प ज्ञापांक-858 दिनांक-27.03.2015 एवं पत्रांक-70 दिनांक-02.05.2016 के आलोक एवं सदृश्य समर्पित उपर्युक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर दोनों संवर्ग के लिए पुनरीक्षण तालिकाओं के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप (वि0वि0के पत्रांक-76 दिनांक-07.04.17 के अनुसार) उनके मूल पेंशन पर अनुमानित मासिक अतिरिक्त खर्च की राशि लगभग 2,52,662/- आता है, जिसका दिनांक-24.09.2012 से दिनांक-31.03.17 तक का अनुमान्य महंगाई भत्ता के साथ वर्षवार ब्योरा निम्नवत है :-

वित्तीय वर्ष	अवधि	मूल पेंशन	महंगाई भत्ता	मू0पें0 + महंगाई राहत की योग राशि
2012-13	24.09.2012 to 30.09.2012	252662x7/30=58,955	(@72%)-42,448	1,01,403
	01.10.2012 to 31.12.2012	252662x3=7,57,986	(@72%)-5,45,750	13,03,736
	01.01.2013 to 31.03.2013	252662x3=7,57,986	(@80%)-6,06,389	13,64,375
2013-14	01.04.2013 to 30.06.2013	252662x3=7,57,986	(@80%)-6,06,389	13,64,375
	01.07.2013 to 31.12.2013	252662x6=15,15,972	(@90%)-13,64,375	28,80,347
	01.01.2014 to 31.03.2014	252662x3=7,57,986	(@100%)-7,57,986	15,15,972
2014-15	01.04.2014 to 30.06.2014	252662x3=7,57,986	(@100%)-7,57,986	15,15,972
	01.07.2014 to 31.12.2014	252662x6=15,15,972	(@107%)-16,22,090	31,38,062
	01.01.2015 to 31.03.2015	252662x3=7,57,986	(@113%)-8,56,524	16,14,510
2015-16	01.04.2015 to 30.06.2015	252662x3=7,57,986	(@113%)-8,56,524	16,14,510
	01.07.2015 to 31.12.2015	252662x6=15,15,972	(@119%)-18,04,007	33,19,979
	01.01.2016 to 31.03.2016	252662x3=7,57,986	(@125%)-9,47,483	17,05,469
2016-17	01.04.2016 to 30.06.2016	252662x3=7,57,986	(@125%)-9,47,483	17,05,469
	01.07.2016 to 31.12.2016	252662x6=15,15,972	(@132%)-20,01,084	35,17,056
	01.01.2017 to 31.03.2017	252662x3=7,57,986	(@136%)-10,30,861	17,88,847
Total		1,37,02,703	1,47,47,379	2,84,500,82

ह०/-

सरकार के सचिव।
